

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 9—जनवरी 15, 2016 (पौष 19, 1937)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 9—JANUARY 15, 2016 (PAUSA 19, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 30 सितम्बर 2015

ए एण्ड एस क्र. 03/2015-16— भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक, श्री विजय कुमार मोंगा, महाप्रबंधक (सहयोगी एवं अनुषंगी) को निम्नलिखित सहयोगी बैंकों में तत्काल प्रभाव से निदेशक पद पर नामित करता है :

- (i) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
- (ii) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- (iii) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- (iv) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
- (v) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 30th September 2015

A&S No. 03/2015-16—In terms of Clause (c), sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India hereby nominates Shri Vijay Kumar Monga, General Manager (Associates & Subsidiaries), A&S Group, State Bank of India, Mumbai, as a Director on the Board of the following Associate Banks with immediate :

- (i) State Bank of Bikaner & Jaipur
- (ii) State Bank of Hyderabad
- (iii) State Bank of Mysore
- (iv) State Bank of Patiala
- (v) State Bank of Travancore

ARUNDHATI BHATTACHARYA
Chairman

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016
www.dop.nic.in